

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन  
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 139 ]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 25 फरवरी 2010—फाल्गुन 6, शक 1931

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 25 फरवरी 2010

क्र. एफ. ए. 2-8-2002-एक (1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राज्यपाल सचिवालय तथा हाउस होल्ड (अराजपत्रित) तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती नियम, 2007 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

(1) अनुसूची-एक के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात् :—

“ अनुसूची—एक  
(नियम 5 देखिए)

वर्गीकरण, वेतनमान और सेवा में सम्मिलित पद

अनु- क्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या			वर्गीकरण	वेतनमान	अभ्युक्ति
		सचि- वालय	हा.हो.	कुल			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	सहायक लेखाधिकारी	1	-	1	म. प्र. राज्यपाल सचिवालय तथा हाउसहोल्ड (अराजपत्रित) सेवा तृतीय श्रेणी	PB-2 रु. 9300-34800+रु. 3200	
2	केटरिंग मैनेजर	-	1	1	—”—	PB-2 रु. 9300-34800+रु. 3200	
3	सहायक मैनेजर	-	1	1	—”—	PB-2 रु. 9300-34800+रु. 3200	
4	सहायक सत्कार अधिकारी	-	1	1	—”—	PB-1 रु. 5200-20200+रु. 2800	
5	निज सहायक	2	-	2	—”—	PB-2 रु. 9300-34800+रु. 3600	
6	शीघ्रलेखक	1	-	1	—”—	PB-1 रु. 5200-20200+रु. 2800	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7	सहायक ग्रेड-एक	6	1	7	तृतीय श्रेणी	PB-2 रु. 9300-34800+रु. 3600	
8	सहायक प्रोग्रामर	2	-	2	—”—	PB-2 रु. 9300-34800+रु. 3600	
9	सहायक ग्रेड-दो	3	1	4	—”—	PB-1 रु. 5200-20200+रु. 2400	
10	सहायक ग्रेड-तीन	5	2	7	—”—	PB-1 रु. 5200-20200+रु. 1900	
11	स्टेनोग्राफिस्ट (द्विभाषी)	1	-	1	—”—	PB-1 रु. 5200-20200+रु. 1900	
12	डाटा एंट्री आपरेटर	3	-	3	—”—	PB-1 रु. 5200-20200+रु. 2400	
13	टेलीफोन आपरेटर	-	6	6	—”—	PB-1 रु. 5200-20200+रु. 1900	
14	हाउस कीपर	-	1	1	—”—	PB-1 रु. 5200-20200+रु. 1900	
15	सहायक ग्रंथपाल	-	1	1	—”—	PB-1 रु. 5200-20200+रु. 2800	
16	मुख्य वाहनचालक	-	1	1	—”—	PB-1 रु. 5200-20200+रु. 2100	
17	वाहनचालक	6	4	10	—”—	PB-1 रु. 5200-20200+रु. 1900	
18	कुक ग्रेड-एक	-	1	1	—”—	PB-1 रु. 5200-20200+रु. 2400	
19	हेड कुक	-	1	1	—”—	PB-1 रु. 5200-20200+रु. 1900	
20	कुक ग्रेड-दो	1	3	4	—”—	PB-1 रु. 5200-20200+रु. 1900	
21	बटलर	-	1	1	—”—	PB-1 रु. 5200-20200+रु. 1900	
22	सहायक कुक	-	4	4	चतुर्थ श्रेणी	1S रु. 4440-7440+रु. 1400	
23	वेटर	3	5	8	—”—	1S रु. 4440-7440+रु. 1400	
24	केयर टेकर	-	1	1	—”—	PB-1 रु. 5200-20200+रु. 1800	
25	सहायक केयर टेकर	-	1	1	—”—	1S रु. 4440-7440+रु. 1400	
26	ट्रांसपोर्ट जमादार	-	1	1	—”—	PB-1 रु. 5200-20200+रु. 1800	
27	हेड जमादार	-	1	1	—”—	PB-1 रु. 5200-20200+रु. 1800	
28	जमादार	2	1	3	—”—	1S रु. 4440-7440+रु. 1400	
29	सफाई जमादार	-	2	2	—”—	1S रु. 4440-7440+रु. 1400	
30	दफ्तरी	1	1	2	—”—	1S रु. 4440-7440+रु. 1400	
31	चौबदार	-	2	2	—”—	1S रु. 4440-7440+रु. 1400	
32	टिण्डेल	-	1	1	—”—	1S रु. 4440-7440+रु. 1400	
33	भृत्य	8	7	15	—”—	1S रु. 4440-7440+रु. 1300	
34	खलासी	-	23	23	—”—	1S रु. 4440-7440+रु. 1300	
35	क्लीनर	-	3	3	—”—	1S रु. 4440-7440+रु. 1300	
36	मसालची	-	4	4	—”—	1S रु. 4440-7440+रु. 1300	
37	धोबी	-	2	2	—”—	1S रु. 4440-7440+रु. 1300	
38	मेट	-	1	1	—”—	1S रु. 4440-7440+रु. 1300	
39	स्वीपर	10	-	10	—”—	1S रु. 4440-7440+रु. 1300	
40	चौकीदार	-	3	3	—”—	1S रु. 4440-7440+रु. 1300	

(2) अनुसूची-तीन में, अनुक्रमांक 2 के सामने, कॉलम (5) में, विद्यमान प्रविष्टि (3) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि स्थापित की जाए, अर्थात् :-

“(3) निम्नलिखित मान्यता प्राप्त संस्था में से किसी संस्था द्वारा कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण की हो,—

- (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा.
- (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त किसी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा.
- (ग) डी.ओ.इ.ए.सी.सी. द्वारा संचालित डिप्लोमा स्तरीय परीक्षा.
- (घ) शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज से मार्डन आफिस मैनेजमेंट कोर्स.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सुदेश कुमार, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 25 फरवरी 2010

क्र. एफ. ए. 2-8-2002-एक (1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. ए. 2-8-2002-एक (1), दिनांक 25 फरवरी 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सुदेश कुमार, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 25th February 2010

No. F. A. 2-8-2002-One (1).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh Governor's Secretariat and House Hold (Non-Gazetted), Class-III and Class-IV Service Recruitment Rules, 2007 namely :—

AMENDMENTS

In the said rules,—

- (1) For Schedule-I the following Schedule shall be substituted, namely :—

“SCHEDULE—I  
(See Rule - 5)

**Classification, Pay Scales and Posts included in the Service**

S. No.	Name of Posts Included in the Service	No. of posts			Classification	Pay Scale	Remarks
		Secretariat	H.H.	Total			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Assistant Accounts Officer	1	-	1	M.P. Governor's Secretariat and House Hold (Non-Gazetted) Service Class-III	PB-2 Rs. 9300-34800+Rs. 3200	
2	Catering Manager	-	1	1	—”—	PB-2 Rs. 9300-34800+Rs. 3200	
3	Assistant Manager	-	1	1	—”—	PB-2 Rs. 9300-34800+Rs. 3200	
4	Assistant Protocol Officer	-	1	1	—”—	PB-1 Rs. 5200-20200+Rs. 2800	
5	Personal Assistant	2	-	2	—”—	PB-2 Rs. 9300-34800+Rs. 3600	
6	Stenographer	1	-	1	—”—	PB-1 Rs. 5200-20200+Rs. 2800	
7	Assistant Grade-I	6	1	7	—”—	PB-2 Rs. 9300-34800+Rs. 3600	
8	Assistant Programmer	2	-	2	—”—	PB-2 Rs. 9300-34800+Rs. 3600	
9	Assistant Grade-II	3	1	4	—”—	PB-1 Rs. 5200-20200+Rs. 2400	
10	Assistant Grade-III	5	2	7	—”—	PB-1 Rs. 5200-20200+Rs. 1900	
11	Stenotypist (Bilingual)	1	-	1	—”—	PB-1 Rs. 5200-20200+Rs. 1900	
12	Data Entry Operator	3	-	3	—”—	PB-1 Rs. 5200-20200+Rs. 2400	
13	Telephone Operator	-	6	6	—”—	PB-1 Rs. 5200-20200+Rs. 1900	
14	House Keeper	-	1	1	—”—	PB-1 Rs. 5200-20200+Rs. 1900	
15	Assistant Librarian	-	1	1	—”—	PB-1 Rs. 5200-20200+Rs. 2800	
16	Head Driver	-	1	1	—”—	PB-1 Rs. 5200-20200+Rs. 2100	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
17	Driver	6	4	10	Class-III	PB-1 Rs. 5200-20200+Rs. 1900	
18	Cook Grade-I	-	1	1	—”—	PB-1 Rs. 5200-20200+Rs. 2400	
19	Head Cook	-	1	1	—”—	PB-1 Rs. 5200-20200+Rs. 1900	
20	Cook Grade-II	1	3	4	—”—	PB-1 Rs. 5200-20200+Rs. 1900	
21	Butler	-	1	1	—”—	PB-1 Rs. 5200-20200+Rs. 1900	
22	Assistant Cook	-	4	4	Class-IV	IS Rs. 4440-7440+Rs. 1400	
23	Waiter	3	5	8	—”—	IS Rs. 4440-7440+Rs. 1400	
24	Care Taker	-	1	1	—”—	PB-1 Rs. 5200-20200+Rs. 1800	
25	Assistant Care Taker	-	1	1	—”—	IS Rs. 4440-7440+Rs. 1400	
26	Transport Jamadar	-	1	1	—”—	PB-1 Rs. 5200-20200+Rs. 1800	
27	Head Jamadar	-	1	1	—”—	PB-1 Rs. 5200-20200+Rs. 1800	
28	Jamadar	2	1	3	—”—	IS Rs. 4440-7440+Rs. 1400	
29	Safai jamadar	-	2	2	—”—	IS Rs. 4440-7440+Rs. 1400	
30	Daftari	1	1	2	—”—	IS Rs. 4440-7440+Rs. 1400	
31	Chaubdar	-	2	2	—”—	IS Rs. 4440-7440+Rs. 1400	
32	Tindel	-	1	1	—”—	IS Rs. 4440-7440+Rs. 1400	
33	Peon	8	7	15	—”—	IS Rs. 4440-7440+Rs. 1300	
34	Khalasi	-	23	23	—”—	IS Rs. 4440-7440+Rs. 1300	
35	Cleaner	-	3	3	—”—	IS Rs. 4440-7440+Rs. 1300	
36	Masalchi	-	4	4	—”—	IS Rs. 4440-7440+Rs. 1300	
37	Dhobi	-	2	2	—”—	IS Rs. 4440-7440+Rs. 1300	
38	Mait	-	1	1	—”—	IS Rs. 4440-7440+Rs. 1300	
39	Sweeper	10	-	10	—”—	IS Rs. 4440-7440+Rs. 1300	
40	Chaukidar	-	3	3	—”—	IS Rs. 4440-7440+Rs. 1300	

(2) In Schedule-III, against serial number 2, in column (5), for existing entry (3), the following entry shall be substituted, namely :—

“(3) Should have passed Computer examination from any of the following recognized Institutes,—

- Diploma From any University recognized by UGC.
- Diploma From any Open University recognized by UGC.
- Diploma level examination conducted by DOEACC.
- Modern Office Management Course from Government Polytechnic College.”

By order and in the name of the Governor of  
Madhya Pradesh,  
SUDESH KUMAR, Principal Secy.